



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 अग्रहायण 1940 (श०)

(सं० पटना 1032) पटना, शुक्रवार, 7 दिसम्बर 2018

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अधिसूचना

4 दिसम्बर 2018

सं० अ०सं०क०-01-17/2011-146—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 56वीं से 59वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन वेतनमान 9300-34800/- ग्रेड पे०-5400 पुनरीक्षित वेतनमान 53100-167800/- लेवल-09 में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है :-

क्र०	अभ्यर्थी का नाम	मेधा क्रमांक
1	2	3
1.	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, पिता- श्री दिनेश कुमार सिंह C/O उमाशंकर प्रसाद, रूपमहल, बाबा बासुकीनाथ कॉलोनी, मीरजानहाट, भागलपुर, बिहार पिन-812005	257
2.	श्री हेमन्त कुमार, पिता-श्री जयनारायण महतो, ग्राम+पो०- खोदाबन्दपुर, भाया मेघौल, जिला-बेगूसराय, पिन-848202	261
3.	श्री रवि प्रकाश, पिता-श्री रामचरित्र पासवान, शिवाजी नगर, पो०-दीघाघाट, पटना-800011	1103

2. नवनियुक्त अभ्यर्थियों का परीक्ष्यमान की अवधि योगदान की तिथि से दो वर्षों की होगी।
3. अभ्यर्थियों को तत्काल औपबंधिक रूप से इस शर्त के साथ नियुक्ति की जाती है कि उनके संबंध में तथा उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/चरित्र प्रमाण पत्रों की सम्पुष्टि के क्रम में कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है अथवा कोई गड़बड़ी पायी जाती है तो संबंधित अभ्यर्थी की सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के तत्कालिक प्रभाव से रद्द की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकेगी।
4. सभी नियुक्त अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेघा क्रमांक के अनुरूप होगी।
5. जिन अभ्यर्थियों ने जाँच के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वांछित शैक्षणिक/जाति/चरित्र प्रमाण-पत्र इत्यादि समर्पित/प्रस्तुत नहीं किया है वे योगदान के साथ उक्त वांछित प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से समर्पित करेंगे अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. नवनियुक्त पदाधिकारी नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से तीन सप्ताह के अन्दर अपना योगदान अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) में समर्पित करेंगे।
7. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919 दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में दहेज ने लेने संबंधी घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से योगदान के समय प्रस्तुत करेंगे।  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
आमिर सुबहानी,  
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1032-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>